



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]  
No. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 1981/अग्रहायण 30, 1903  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 1981/AGRAHAYANA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1981

का० नि० आ० 33-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड देहू रोड के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्वारा सदस्य घोषणा करती है और यह प्रतिरिक्त निदेश देती है कि 23 दिसम्बर, 1981 से एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

प्राकटन संख्या 29/34/सी/एल एण्ड सी/77/3586-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st December, 1981

S.R.O. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Dehu Road, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of one year with effect from the 23rd December, 1981.

{File No.: 29/34/C/L&C/77/3586-C/D(Q&C)}

का० नि० आ० 34-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार के

रक्षा मंत्रालय, अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 33-ई, दिनांक 21-12-1981 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21-12-1981 के भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, देहू रोड के सदस्य के रूप में 23 दिसम्बर, 1981 से मनोनीत किया गया है :-

1. कप्तान जी० एस० बालीया धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित,
2. श्री पी० जे० अग्रवाल धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित।

[(प्राकटन संख्या 29/34/सी/एल/एण्ड सी/77/3586/1-सी डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 34-E.—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 33-E. dated the 21-12-1981, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 21-12-1981, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Dehu Road with effect from 23rd December, 1981 :-

1. Capt. G.S. Walia nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14,
2. Shri P.J. Agarwal nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[File No. 29/34/C/L&C/77/3586/1-C/D (Q&C)]

का० नि० आ० 35 -ई--छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, पुणे के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्वारा तबर्ष घोषणा करती है और यह प्रतिरिक्त निवेदन देती है कि 23 दिसम्बर, 1981 से एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या 29/9/सी/एल एण्ड सी/76/3585-सी/डी (न्यू एण्ड सी)]

**S.R.O. 35(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Pune, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of one year with effect from the 23rd December, 1981.

[File No. 29/9/C/I&C/76/3585-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 36-ई:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 35-ई, दिनांक 21-12-1981 के साथ जो कि भारत सरकार के प्रसाधारण राजपत्र दिनांक 21-12-1981 के भाग-II, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन

के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, पुणे के सदस्य के रूप में 23 दिसम्बर, 1981 से मनोनीत किया गया है: --

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ले० के० कोना अर्जुन राव  | धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित, |
| 2. श्री प्रकाश नारायण केदरी | धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित। |

[(फाइल संख्या-29/9/सी/एल एण्ड सी/76/3585/1-सी/डी (न्यू एण्ड सी)]

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

**S.R.O. 36-E.**—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924, (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 35-E., dated the 21-12-1981, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 21-12-1981, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Pune with effect from 23rd December, 1981:—

1. Lt. Col. Kona Arjun Rao nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri Prakash Narayan Kedari son of Shri Narayana Rao Kedari nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[File No. 29/9/C/L&C/76/3585/1-C/D (Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy.